

ISGEC HEAVY ENGINEERING LTD.

A-4, Sector-24, Noida - 201 301 (U.P.) India (GST No.: 09AAACT5540K2Z4)

Tel.: +91-120-4085000 / 01 / 02 Fax: +91-120-4085100

www.isgec.com Email: CS@ISACL.co.?n

Date: **February 14, 2023**

HO-425-S

To, BSE Limited Registered Office: Floor 25, P J Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001 To, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Company Scrip Code: 533033

Company Symbol: ISGEC

Dear Sir(s)/Madam(s),

<u>Furnishing of Information as per Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015</u>

Subject: Copy of Newspaper advertisements/publications for Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

- 1. Pursuant to Regulation 47, 30 read with Schedule III and any other applicable regulation(s), if applicable of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Newspaper advertisements/publications with regard to Unaudited (Standalone and Consolidated) financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022.
- 2. Newspaper Advertisements/publications published in the following newspapers:
 - i) 'Business Line' (English daily newspapers) February 14, 2023
 - ii) 'Hari Bhoomi' (Hindi daily newspapers) February 14, 2023
- 3. As required under Regulation 46 (2) (q), this intimation is also being uploaded on the website of the Company at www.isgec.com under "Newspaper Advertisements" section.
- 4. The above is for your information and records please.

Thanking you,

Yours Truly, For Isgec Heavy Engineering Limited

CS Sachin Saluja Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A24269 Address: A-4, Sector-24 Noida-201301, Uttar Pradesh (Digitally Signed)

Encl.: As above

For Isgec Deav Engineering Limited

es Sachin Saluja

Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A24269

Membership No. A24269 Address: A-4. Sector-24

Noida-201301, Uttar Pradesh

(Manually Signed)

Salcomp to double **Indian workforce**

STRATEGY. 'Need to focus on localisation'

Our Bureau

Salcomp, the Finnish manufacturer of chargers and adaptors for smartphones and other handheld devices, will more than double its Indian workforce to over 25,000 in the next 2-3 years, according to a senior company executive.

"Today, we have 12,000 people and have plans to go to 25,000 people in the next 2-3 years," said Sasikumar Gendham, Managing Director, Salcomp India.

Salcomp, a major supplier of chargers to Apple for its iPhones, acquired Nokia's Sriperumbudur plant in Chennai, which has been closed since 2014 due to a tax dispute.

GROWTH DRIVERS

Speaking at the inaugural session of the 12th Source India -Electronics Supply Chain conference, organised by the Electronic Industries Association of India (ELCINA) here on Monday, Gendham said 85 per cent of Salcom's 12,000strong Indian workforce are women and the company has so far exported over a billion chargers from the Chennai

The global electronics industry is expected to grow at a CAGR of 5 per cent and the key drivers for this growth will be the China plus one strategy adopted by companies, increasing government focus on renewable energy, penetration of electric vehicles and the growing demand for electronics due to 4G and 5G network



念

Date: 13.02.2023

Sasikumar Gendham. MD, Salcomp India

availability, said Gendham.

"In the Indian context, the China plus one strategy is at its peak at the moment," he said.

ANYWHERE BUT CHINA

Companies are focusing on the supply chain diversification through anywhere but China (ABC) strategy because "everyone knows that the whole world is depending on this one nation over the last two decades and it's time to diversify and decluster ourselves from that," he said.

He added that India's electronics market is one of the fastest growing in the world. The total electronics market is valued about \$91 billion in 2021 and is expected to be at least \$300 billion by 2026. "Domestic production is approximately 75 per cent of this overall value and hopefully, it can reach \$70 billion by 2026," Gendham added.

While India has a big potential and huge market for both domestic and exports, the one area that needs focus is 'localisation' and increased value addition. "Otherwise, we would just be assemblers," he

LAMBODHARA TEXTILES LIMITED

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2022

CIN: L17111 TZ 1994 PLC 004929 Regd. Office: 3A, 3rd Floor, B Block, Pioneer Apartments 1075B, Avinashi Road, Coimbatore - 641 018, India. Telefax: +91 - 422 - 4351083 Email & Investor Grievance ID: info@lambodharatextiles.com Web: www.lambodharatextiles.com

Quarter Ended Nine Months Ended Year Ended Particulars 31,12,2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31,12,2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 1 Total Income from Operations 5,413,36 5,787.64 4,820,59 16,895,86 13,112.36 17,926.57 765.63 2,234.42 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)

Net Profit/(Loss) for the period after tax 699.88 1.706.07 641.84 765.63 2,133.63 2,234.42 538.85 617.05 456.28 1,694.31 1,218.12 1,583.09 (after Exceptional and / or Extraordinary items (Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax 545.27 1674.51 1,619.90 Equity Share Capital 518.88 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the 7,836.67 8 Earnings per equity share

The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Nine Months ended Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation (SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Nine Months ended Unaudited Financial Results are on the Stock Exchange Websites (URL: www.nseindia.com & www.bseindia.com) and on the Company's website (URL: www.nseindia.com). The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 13.02.2023. The results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Compani

Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable

For Lambodhara Textiles Limited sd/- Giulia Bosco DIN: 01898020

Regd. Office: B3, Third Floor, 6-3-1090, T.S.R. Towers, Rajbhavan Road, Somajiguda,

GAYATRI BIOORGANICS LIMITED

Hyderabad -500 082, Telangana, India. Website: www.gayatribioorganics.com Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended 31st December, 2022

Particulars	STANDALONE							
		Quarter end	led	Nine Mont	Nine Months ended			
	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022		
Total Income from Operations	_			_	_			
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extra Ordinary items)	(12.41)	(23.72)	(10.31)	(52.35)	(35.87)	(49.61)		
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(12.41)	(23.72)	(10.31)	(52.35)	(35.87)	(49.61)		
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(12.41)	(45.19)	(10.31)	(73.82)	(35.87)	(49.61)		
Total comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]*	(12.41)	(45.19)	(10.31)	(73.82)	(35.87)	(49.61)		
Equity Share Capital	7,878.81	7,878.81	7,878.81	7,878.81	7,878.81	7,878.81		
Earnings Per Share (of ₹ 10/-each) (for continuing and discontinued operations) Basic and Diluted (in ₹)	(0.02)	(0.06)	(0.01)	(0.09)	(0.05)	(0.06)		

Note: The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial Results for the Quarter ended December 31, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Unaudited financials Prepared. The full format of the said quarterly Financials Results is available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and on Company's websites. www.gayatribioorganics.com

By Order of the Board of Directors Place: Hyderabad For Gayatri Bioorganics Limited Date: February 13, 2023

ERNAKULAM REGIONAL CO-OPERATIVE MILK PRODUCERS' UNION LTD.

EDAPPALLY, KOCHI - 24 Ph: 0484 - 2541193, 2556863, ercmpuproj@milma.com 13.02.2023

NO. EU/PUR/105/2022-25		13.02.2023						
ETENDER NOTICE								
Title	E tender ID	Bid closing date						
Retender for the supply, erection and commissioning of 3 KL and 5 KL Bulk Milk Cooling Units and Heat Recovery Systems	2023_KCM- MF_ 557662_1	22.02.2023 10:00 AM						
Retender for the supply of Stainless Steel 304 Milk Can 20000 Nos with 10 Ltr Capacity for Dairy farmers attached to ERCMPU Ltd	2023_KCM- MF_ 557657_1	22.02.2023 10:00 AM						
For NIT visit www.etenders.kerala.gov.in	(Sd/-)	Managing Director						

ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED

Regd. Office: Radaur Road, Yamunanagar – 135001 (Haryana) **CIN:** L23423HR1933PLC000097, **Ph:** +91-120-4085405, **Fax:** +91-120-2412250 Email: cfo@isgec.com, Website: www.isgec.com

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2022

	(₹ in lakhs except earnings per share)										
SI.	Particulars		Standalone		Consolidated						
No.		Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended	Quarter ended	Nine months ended	Quarter ended				
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)				
1.	Total Income from Operations	1,10,318	3,26,148	1,11,863	1,59,797	4,36,332	1,40,258				
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	5,345	15,032	4,965	8,508	16,423	7,772				
3.	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	5,345	15,032	4,965	8,508	16,423	7,772				
4.	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,982	11,582	3,678	6,586	11,238	5,196				
5.	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit/(Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4,007	11,678	3,689	6,747	11,352	5,226				
6.	Equity Share capital	735	735	735	735	735	735				
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		1,77,588			2,11,358					
8.	Earnings per equity share (of ₹1/- each) (not annualised except for March, 31)										
	(a) Basic (in ₹) (b) Diluted (in ₹)	5.42 5.42	15.75 15.75	5.00 5.00	8.56 8.56	15.01 15.01	6.40 6.40				
Not	001										

By Order of the Board

The above Standalone and Consolidated financial results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 13, 2023.

The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended thereafter.

The Indian Parliament has approved the Code on Wages, 2019 and the Code on Social Security, 2020 relating to employee benefit during employment and post employment benefits which would impact the contributions by the company towards Provident Fund and Gratuity. The Ministry of Labour and Employment has released draft rules for the Code on Social Security, 2020 on November 13, 2020, and has invited suggestions from stakeholders which are under active consideration by the Ministry. The Company will assess the impact once the subject rules are notified and will give appropriate impact in its financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results are available on the Stock exchange website, www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.isgec.com.

The figures for the corresponding previous periods have been regrouped, wherever necessary, to make them comparable the figures for the corresponding previous periods have been regrouped.

Date: February 13, 2023

FOR ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED (Aditva Puri) Managing Directo

An ISO 9001 NILE CIN: L27029AP1984PLC004719 Regd. Office: Plot No.38 & 40, APIIC Industrial Park, Gajulamandyam (V), Renigunta (M), Tirupati Dist., A.P.- 517520

Corp. Office: Plot No.24A/A, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034. Ph.040-23606641, Fax: 040-23606640 Email: legal@nilelimited.com; website: www.nilelimited.com;

Statement of Standaione & Consolidated Un-audited Results for the Quarter and Nine Months Ended 31st December, 2022								
		(Rs. in Lakhs)						
	STANDALONE	CONSOLIDATED						

Quarter Ended			Nine Months Ended		Quarter Ended			Nine Months Ended		
31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.202	
Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited	
21,578.43	21,233.07	21,140.67	58,925.60	53,838.16	21,577.79	21,232.69	20,140.67	58,924.62	53,838.16	
667.52	372.29	810.26	1,914.05	2,572.60	656.95	366.54	809.68	1,892.11	2,549.55	
667.52	372.29	810.26	1,914.05	2,572.60	656.95	366.54	809.68	1,892.11	2,549.55	
500.94	273.44	599.25	1,424.87	1,911.32	490.37	267.69	598.67	1,402.93	1,888.27	
500.94	273.44	599.25	1,424.87	1,911.32	490.37	267.69	598.67	1,402.93	1,888.27	
300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	300.19	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
16.69 16.69				63.67 63.67	16.34 16.34	8.92 8.92		46.73 46.73		
	31.12.2022 Un-audited 21,578.43 667.52 667.52 500.94 300.19 NA 16.69	31.12.2022 30.09.2022 Un-audited Un-audited 21,578.43 21,233.07 667.52 372.29 667.52 372.29 500.94 273.44 500.94 273.44 300.19 300.19 NA NA 16.69 9.11	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 Un-audited Un-audited Un-audited 21,578.43 21,233.07 21,140.67 667.52 372.29 810.26 667.52 372.29 810.26 500.94 273.44 599.25 500.94 273.44 599.25 300.19 300.19 300.19 NA NA NA NA 16.69 9.11 19.96	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2022 Un-audited Un-audited<	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited 21.578.43 21.233.07 21.140.67 58.925.60 53.838.16 667.52 372.29 810.26 1.914.05 2.572.60 667.52 372.29 810.26 1.914.05 2.572.60 500.94 273.44 599.25 1.424.87 1.911.32 1.914.05 2.572.60 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19 300.19	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 Un-audited Un-	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2022 30.09.2022 Un-audited Un-a	31.12.2022 30.09.2022 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 30.19.202 31.12.2021 30.19.202 31.12.2021 30.19.202 31.12.2021 30.19.202 31.12.2021 30.19.23.202 31.12.2021 30.19.23.202 31.12.2021 31.12.2021 30.19.23.202 31.22.201 30.19.23.202 30.19.23.202 31.12.2021 31.12.2021 31.12.2021 31.22.202 30.140.67 80.65 366.54 809.68 500.94 273.44 599.25	31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2021 Manaudited Un-audited Un-audited<	

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine MonthsEnded Financial Results is available on the BSE Ltd. (Stock Exchange) website (www.bseindia.com), and Website of the Company (www.nilelimited.com).

2 The Consolidated Financial Results include results of wholly owned Subsidiaries "Nirmalya Extracts Private Limited" and "Nile Li-Cycle Private Limited". Both the Subsidiary Companies has not yet started its Business Operations as on Nine Months Ended 31.12.2022.

For Nile Limited Sd/- Rajani K Place: Hyderabad Company Secretary

	NATURAL CAPSULES LIMITED No. 23, "Trident Towers 4th Floor, 100 ft. Road, Jayanagar 2nd Block, Bangalore - 560 011. Ph. 26561571/573, Fax 26561562, e-mail: Info@naturalcapsules.com / CIN: L85110KA1993PLC014742												
	EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2022 (Rs.in Lakhs)												
Г	STANDALONE CONSOLIDATED												
SI.	DADTICUI ADO		QUARTER E	NDED	NINE MONT	HS ENDED	YEAR ENDED	Q	UARTER EN	IDED	NINE MON	THS ENDED	YEAR ENDED
No	PARTICULARS		30-09-2022 Un-Audited					31-12-2022 Un-Audited					31-03-2022 Audited
1	Revenue from operations & other Income	4,551.00	4,510.00	3,767.00	13,500.00	9,372.00	13,600.00	4,556.00	4,513.00	3,767.00	13,511.00	9,372.00	13,608.00
2	Net Profit from Ordinary activities after tax	525.00	534.00	413.00	1.583.00	886.00	1.395.00	525.00	533.00	410.00	1.579.00	880.00	1.391.00
3	Net Profit for the period after tax (after Extraordinary items)	525.00	534.00	413.00	1,583.00	886.00	1,376.00	525.00	533.00	410.00	1,579.00	880.00	1,372.00
4	Paid-up Equity Share Capital (Face value of share of Rs.10/- each as on date)	924.33	777.00	701.18	924.33	701.18	701.00	924.33	777.00	701.18	924.33	701.18	701.00
5	Other Equity				-		7,604.00	-					7,597.00
6	Earnings Per Share (EPS) (of Rs.10/- each) (Before & after extraordinary item)	5.68	6.87	5.89	17.13	12.64	19.62	5.68	6.85	5.85	17.08	12.55	19.56
	(a) Basic EPS (in Rs.) (b) Diluted EPS (in Rs.)	5.68	6.87	5.89			19.62		6.85	5.85	17.08	12.55	19.56

The unaudited standalone / consolidated financial results of the Company for the Quarter / Nine Months Ended 31st Dec, 2022 have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on 13th February, 2023. The figures for the quarter / nine months ended 31st Dec, 2022 was subject to "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company who have expressed an unqualified review opinion.

2 The unaudited standalone / consolidated financial results for the Quarter / Nine months ended 31st Dec, 2022 have been prepared above in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above unaudited standards (Indian Accounting Standards) Rules, 2016. The above and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are available on the Stock Exchange Website

3 The Company vide letter of offer dated 30th Oct, 2021 issued second & final call notice to existing shreholders as on record date 10.11.2022. Call money period was open from 21.11.2022 to 05.12.2022. Total 31,16,350 Rights equity shares of face value of Rs. 10.00 (of which Rs.5.00/- being called up) ("Rights Equity Shares") at an issue Price of Rs. 100.00 per Equity Share (including a premium of Rs.90 per share and of which Rs. 50 being called up). The Company has received Rs. 44.02 Lakhs on 01.10.2022 against the first call application money-Reminder Notice & Rs. 14.64 cr. on 11.01.2023 towards second & Final call money. The company has already received Rs. 779.09 lakh as right issue application money of Rs.25 per rights equity shares (including premium of Rs.22.50 per share) during the quarter ended 31.03.2022 & Rs.708.02 Lakh during the quarter ended 30th Sept against the first call money. There is no deviation in the use of proceeds from the objects stated in the offer documents for the right his issue 4 Utilization of right issue funds by the Natural Capsules Ltd as on 31st Dec. 2022 is as follows: (Rs. In Lakh)

Particulars Amount Spent Balance available as on 31.12.2022 Previous years figures have been regrouped wherever necessary. 6 Position of investor complaints for the quarter ended 31st December 2021 Particulars Pending as on 30-09-2022 Received during the quarter Resolved during the quarter Pending as on 31-12-2022

Sd/-Sunil L Mundra Managing Director DIN: 00214304



KCMMF:HO:PUR:131:2023/3 Bids are invited through e-tenders from interested Bidders for supply of Dairy Consumables for our Dairies. Re e-tenders are hosted in www.etenders.kerala.gov.in. Last date for submission of bids is 25.02.2023. For more details, log on to www.etenders.kerala.gov.in or

Managing Director

Managing Director



Malabar Regional Co-operative Milk Producers' Union Ltd.

E-TENDER NOTICE

Tenders are invited from eligible bidders for the supply of following items. Closing date Source of bid documents Item Air Handling Units for Cold Store at Malappuram Dairy 07-Mar-2023 www.etenders. kerala.gov.in IE5 Hydro Pneumatic System 07-Mar-2023 at Malappuram Dairy Vertical Inline Multistage 28-Feb-2023 MRCMPU Head Office, Kozhikode Pump at Malappuram Dairy For further enquiries, visit our website or contact Head Office, MRCMPU Ltd

GSPL India Gasnet Limited

200GJ2011SGC067449 Corp. Office: "GSPL Bhavan, Sector-26, Gandhinaga Tel: +91-79-23268500 Fax: +91-79-23268875 Website: www.gspcgroup.com

NOTICE INVITING TENDER

GSPL India Gasnet Limited (GIGL), Joint venture Company promoted by GSPL, IOCL, BPCL and HPCL is laying a gas grid, to facilitate gas transmission from supply points to demand centres. GIGL invites bids from reputed pipeline construction companies for following requirements vide "Single Stage, Three-Part" bidding process: Pipeline and Associated Works for HRRL Connectivity Project

(18" X 85 Km approx.) on EPC basis.

Interested bidders can view /download details, viz. Bidding Schedule, Bid Qualification Criteria (BQC) and other details from http://gigl.nprocure.com/ Details can also be viewed on GIGL website (http://gspcgroup.com/GIGL/). Bidders can submit their bid through http://gigl.nprocure.com and all future announcement related to this tender shall be published on


http://gigl.nprocure.com only. GIGL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage without assigning any reason. GIGL also reserves the right to reject any or all of the bids received at its discretion, without assigning any reasons whatsoever.





SPECIAL PUBLICATIONS FROM THE HINDU GROUP













खबर संक्षेप वामपंथियों ने लोगों को गुलाम समझ लिया था

त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के



विवेकानंद मैदान में एक जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और वामपंथियों

पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वामपंथियों के राज में त्रिपुरा विनाश के राह पर था। उन्होंने लोगों को गुलाम समझ लिया था। दफ्तरों और थानों पर काडरों का राज था। वामपंथी शासन ने त्रिपुरा को विनाश के रास्ते पर धकेल दिया था।

बांग्लादेश से भागकर अंडमान पहुंचे ६९ रोहिंग्या

नर्ड दिल्ली। बांग्लादेश से रोहिंग्याओं की एक मोटरबोट अंडमान निकोबार पहंची है। इस मोटरबोट में 69 रोहिंग्या सवार हैं। इनका कहना है कि खराब मौसम और ईंधन बीच में खत्म होने के कारण ये लोग अंडमान निकोबर पहुंच गए। उन्होंने यह भी बताया कि 2 हफ्ते पहले वे एक रिलीफ कैंप से भागे थे। वहीं, अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है और फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय को इस बात की सूचना दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि दो हफ्ते पहले ये लोग बांग्लादेश में एक रिलीफ कैंप से भाग गए थे।

देश में २०३० तक दो करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन होंगे

नर्ड दिल्ली। केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी



कि आज देशभर में 20.8 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हैं। 2021 की तुलना में 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन है और इनमें 300 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। 2030 तक मेरे अनुमान के मुताबिक दो करोड़ वाहन हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मौजुदा समय में

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.8 लाख

जर्मनी के चांसलर शोल्ज की भारत यात्रा और यरोप के हालात व हिंद-

प्रशांत के मुद्दे पर हुई बातचीत

हरिभूमि ब्यूरो 🕪 नई दिल्ली

रूस-यूक्रेन विवाद और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती

चीन को आक्रामकता के बीच जर्मनी के राष्ट्रपति

के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार जेंस

प्लाटर्नर ने सोमवार को विदेश मंत्री

एस.जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

(एनएसए) अजीत डोभाल से मलाकात की। इस

करोड़ रुपये की है।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



लोकसभा सचिवालय ने १५ फरवरी तक मांगा जवाब

राहुल की मोदी-अदाणी संबंधों पर टिप्पणी, मिला नोटिस

एजेंसी ▶▶। नई दिल्ली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन के मामले में लोकसभा सचिवालय की ओर से नोटिस भेजा गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब देने के लिए कहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी की शिकायत पर लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार (10 फरवरी) को राहुल गांधी को ईमेल के जरिये यह नोटिस भेजा। दरअसल, संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 7 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कथित मोदी-अदाणी संबंधों पर केंद्र सरकार को घेरा था। उस दौरान इस्तेमाल की गई उनकी भाषा पर बीजेपी सांसदों की ओर से सवाल उठाया गया। राहुल के भाषण के कछ अंशों को सदन की कार्यवाही से (रिकॉर्ड से) भी हटाया गया।



 राहुल की भाषा पर जताई गई थी आपत्ति

थी शिकायत

 राहल के भाषण के कुछ अंशों को सदन की कार्यवाही से (रिकॉर्ड से) भी हटाया गया



राहुल पर भ्रामक, अपमानजनक, असंसदीय और आपत्तिजनक बयान देने का आरोप लगा है। इसी की शिकायत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा सचिवालय में की। शिकायत के मुताबिक, राहुल गांधी ने सदन में बोलतें हुए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे विशेषाधिकार का हनन हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी का पक्ष जानने के लिए उनसे जवाब तलब किया है। सचिवालय ने राहुल गांधी से नोटिस प्राप्त होने पर उसकी सूचना उपलब्ध कराने को भी कहा है।

अब्दुलनजीर की

नियुक्ति पर विपक्ष

ने साधा निशाना

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व

रिटायरमेंट के कुछ हफ़्तों के भीतर

आंध्र प्रदेश के रॉज्यपाल के रूप में

नियुक्ति की कांग्रेस सहित विपक्ष ने तीखी आलोचना की है। विपक्ष ने

स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी बिरावट

और एक बड़ा खतरा' हैं। कांग्रेस

के वरिष्ठ नेता अभिषेक सिंघवी ने

राज्यसभा में दिवंगत अरुण जेटली

की २०१३ की टिप्पणी- 'सेवानिवत्ति

सेवानिवृत्ति से पहले के फैसलों को

न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए

खतरा हैं' का जिक्र किया। उन्होंने

कहा. 'हम व्यक्तियों के बारे में बात

नहीं कर रहे हैं सैद्धांतिक रूप से,

सीपीएम के राज्यसभा सदस्य एए

(सेवानिवृत्त) नजीर पाँच-न्यायाधीशों

रहीम ने भी हालिया नियुक्ति पर

की पीठ के तीसरे न्यायाधीश हैं.

जिन्होंने अयोध्या का फैसला

हम इसका विरोध करते हैं।

सवाल उठाया। न्यायमित

के बाद की नौकरी की इच्छा

प्रभावित करती है। यह

साफ कहा है कि इस तरह की

नियुक्तियां "न्यायपालिका की

जज एस अब्दुल नजीर की

खड्गे पर भी असंसदीय भाषा बोलने का आरोप

बता दें कि राहुल गांधी के अलावा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मि्लिकार्जुन खड़गे पर भी सदन में असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस अध्यक्ष ने भी मीडिया और जनसभाओं में दी है। खड़गे के मृताबिक, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला फिर भी उनके शब्द रिकॉर्ड से हटाए गए। पिछले दिनों झारखंड के साहेबगंज में कांग्रेस के 'हाथ से हाथ' जोड़ो अभियान की शुरुआत करते हुए खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए यहां तक कहा कि न संसद के भीतर और न ही बाहर बोलने की आजादी है, जो भी सच बोलता, लिखता और दिखाता है, उसे जेल भेज दिया जाता है। कांग्रेस असंसदीय भाषा के मद्दे पर लगातार बीजेपी नीत केंद्र सरकार पर हमलावर है और लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर राहुल गांधी के भाषण के अंशों को फिर से रिकॉर्ड में रखने का आग्रह कर चुकी है।

विशेषाधिकार हनन पस्ताव

विधानसभा, विधानपरिषद और संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होतें हैं। सदन के भीतर जब इन विशेषाधिकारों का हनन होता या इन अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य होता है तो उसे विशेषाधिकार हनन कहते हैं। स्पीकर से इसकी लिखित शिकायत को विशेषाधिकार हनन नोटिस कहते हैं। इस नोटिस के आधार पर ही स्पीकर की मंजूरी के बाद सदन में विशेषाधिकार हनन पस्ताव लाया जाता है। यह प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब उसे लगता है कि सदन में झूठे फैक्ट पेश करने के साथ ही सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन

राष्ट्रपति मुर्मू गंगा

आरती में शामिल हुईं

वाराणसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन-पूजन के बाद काशी की प्रसिद्ध गंगों आरती में शामिल हुई और देश की सुरक्षा व समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। अधिक रियों ने यह जानकारी दी।

भारत- नेपाल के बीच सहयोग बढाने पर सहमति **नर्ड दिल्ली।** भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा और नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौड्याल के बीच सोमवार को काठमांडू में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक हुई। जिसमें दोनों ने आपसी भागीदारी से जुड़े हुए तमाम मामलों की वृहद समीक्षा करते हुए आर्थिक और विकास सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति जताई है। जिससे दोंनों देशों की आम जनता के अलावा समूचे क्षेत्र को लाभ होगा।

कार्यालय नगर निगम, रोहतक

विज्ञापन

हरियाणा सरकार द्वारा सैक्टरों व कालोनियों में स्थित पार्को व ग्रीन बेल्ट की देख-रेख के कार्य के लिए निति तैयार की गई है जिसके तहत अब कोई भी इच्छुक रजिस्ट्रेड एजेन्सी/ आर.डब्लू.ए./एन.जी.ओ. नगर निगम के पार्कों के सौन्दर्यकरण एंव देख-रेख का कार्य कर सकती है। इस कार्य के लिए नगर निगम सम्बन्धित एजेन्सी / आर. डब्लू.ए./एन.जी.ओ. को मु. 4.00 रूपये प्रति वर्गमीटर प्रति माह के हिसाब से भूगतान भी करेगा। अतः इच्छ्क रजिस्ट्रेड एजेन्सी / आर.डब्ल्.ए./एन.जी.ओ. तरंत अपना आवेदन विस्तृत परियोजन रिपोर्ट सहित कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक के कार्यालय में दे।

> -हस्ता- आयुक्त नगर निगम, रोहतक।

खवना

नोटिस के प्रकाशित को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2573 / ईसीडी दिनांक 12.08.2021 द्वारा श्री विरेन्द्र कुमार चालक सं. 05 पर दिनांक 31.07.2021 से बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी डयुटी से स्वैच्छापूर्वक अनुपस्थित होने के आरोप में हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियमावली-2016 के नियम 4 (क) के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। लेकिन कर्मचारी ने कोई भी जवाब कार्यालय में न दिए जाने तथा लगातार अनुपस्थित रहने पर उक्त आरोप पत्र वापिस लेते हुए कर्मचारी को इस कार्योलय के यादि क्रमांक 4456/ईसीडी दिनांक 13.12.2021 द्वारा नियम-4ख के तहत आरोप पत्र जारी किया गया। परन्त कर्मचारी ने कोई भी जवाब कार्यालय में नहीं दिया और न ही कार्यालय में डयुटी पर उपस्थित हुआ । तदोपरान्त कर्मचारी के अनुपस्थित केस में आदेश पृ. क्रमांक 4062-64 / ईसीडी दिनांक 12.01.2022 द्वारा लेखाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। लेकिन कर्मचारी अपनी जांच पर कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच निष्कर्ष रिपोर्ट में उस पर लगाए गए आरोपों को सत्य सिद्ध होने बारे अंकित किया गया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट से सहमत होने उपरान्त उसे क्रमांक 2865 / ईसीडी दिनांक 22.08.2022 द्वारा उसे सेवा समाप्ति बारे कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जो कि रजि. डाक के माध्यम से उसके घर के पते पर भेजा गया। परन्तु कर्मचारी घर पर न होने के कारण उसके सभी पत्र पिता श्री प्रितम सिंह तथा पत्र श्री सचिन को रसिव करवा दिए गए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से श्री विरेन्द्र कुमार चालक सं. 05 को सुचित किया जाता है कि वह नोटिस जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अन्दर किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस बारे जवाब प्रस्तुत करें। यदि वह उक्त अवधि में कार्यालय में नोटिस के जवाब देने हेतु उपस्थित नहीं होता तो नोटिस में प्रस्तावित सजा की विभागीय नियमानुसार पुष्टि कर दी जाएगी।

हस्ता/- महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन पीआरडीएच-1119/11/294/2023/15567/88/6 दि. 08.02.23

इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड पंजी. कार्यालय : रादौर रोड, यमुनानगर-135001, हरियाणा CIN:L23423HR1933PLC00097, Ph:+91-120-4085405, Fax:+91-120-2412250

Email: cfo@isgec.com, Website: www.isgec.com

31.12.2022 को समाप्त तिमाही और नौ माह हेतु स्टैंडअलोन एवं

(अर्जन प्रति शेयर को छोडकर रु. लाखों में

gn.	विवरण		csol(III	71						
सं.		समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त नौ माह	समाप्त तिमाही			
		31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021			
		(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित)	(अअंकेक्षित			
1.	प्रचालनों से कुल आय	1,10,318	3,26,148	1,11,863	1,59,797	4,36,332	1,40,258			
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण और/अथवा असामान्य मदों से पूर्व)	5,345	15,032	4,965	8,508	16,423	7,772			
3.	कर से पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)	5,345	15,032	4,965	8,508	16,423	7,772			
4.	कर के बाद अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि)	3,982	11,582	3,678	6,586	11,238	5,196			
_	(असाधारण और/अथवा असामान्य मदों के बाद)									
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [(अवधि हेतु निहित लाभ/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	4,007	11,678	3,689	6,747	11,352	5,226			
6.	इक्विटी शेयर कैपिटल	735	735	735	735	735	735			
7.	रिजव्र्स (पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर) पूर्ववर्ती वर्ष की अंकेक्षित बैलेंस शीट में दर्शाये अनुसार		1,77,588			2,11,358				
8.	अर्जन प्रति इक्विटी शेयर (रु. 1/- प्रत्येक के) (वार्षिकृत नहीं)									
	(ए) बेसिक (रु. में)	5.42	15.75	5.00	8.56	15.01	6.40			
	(बी) डायल्युटेड (रु. में)	5.42	15.75	5.00	8.56	15.01	6.40			
टि	प्पणी :-									
1.	1. कम्पनी के उपरोक्त स्टैंडअलोन एवं समेकित परिणामों की समीक्षा ऑडिट कमेटी द्वारा कर ली गई और 13 फरवरी 2023 को आयोजित									

उनकी सम्बन्धित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर लिये गये।

कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी (भारतीय लेखा मानदंड) नियमों, 2015, इसके पश्चात संशोधित अनुसार, के तहत अधिसचित भारतीय लेखा मानदंड (Ind AS) के अनरूप तैयार किये गये हैं।

भारतीय संसद नियुक्ति और नियुक्ति-पश्चात लाभों के दौरान कर्मचारी लाभों के सम्बन्ध में सोशल सिक्योरिटी 2020 पर संहिता का अनुमोदन कर चुकी है जिससे भविष्यनिधि और ग्रेच्यूटी के बारे में कम्पनी द्वारा योगदानों पर प्रभाव पड़ेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 13 नवम्बर 2020 को सोशल सिक्योरिटी, 2020 पर संहिता के लिये ड्राफ्ट नियमों को जारी कर चुका है, और स्टेकहोल्डर्स से सुझाव आमंत्रित कर चुका है जो मंत्रालय द्वारा सिक्रय विचाराधीन है। एक बार विषय नियमों को अधिसूचित किये जाने पर कम्पनी प्रभाव का मूल्यांकन करेगी और अविध जिसमें संहिता प्रभावी बनेगी और सम्बन्धित नियम प्रकाशित किये जाएंगे, में इसके वित्तीय विवरणों में उपयक्त प्रभाव प्रदान करेगी। सेबी (लिस्टिंग ओब्लीगेशंस एवं घोषणा आवश्यकताएं) नियमनों, 2015 के नियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के पास दायर किये

गये वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सार ऊपर दिया गया है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइत www.bseindia.com , www.nseindia.com और कम्पनी की वेबसाइट www.isgec.com पर उपलब्ध हैं।

अनुकूल पूर्ववर्ती अविधयों हेतु आंकड़े उनको तुलनायोग्य बनाने के लिये जहां आवश्यक हुआ रिग्रुप्ड कर लिये गये हैं।

कते इस्जेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड (आदित्य पुरी . प्रबंध नि<u>देश</u>

vtirohtakhry@gmail.com

चाचा अशरफ के बयान पर भतीजे महमूद ने मांगी 100 बार माफी विवादित बयान



एजेंसी ▶▶| नई दिल्ली

जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के 'ओम' और 'अल्लाह' वाले बयान पर मचा बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उनके बयान पर हिंदू, जैन सहित मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी आपत्ति जताई है।

इधर, मौलाना के भतीजे जमीयत के अध्यक्ष महमूद मदनी ने उक्त बयान पर

किसी को ठेस पहुंची है तो हम 100 बार माफी मांगते हैं। जो भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ। हमें लगता है कि ये जोड़ने वाली बात है. लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये बात तोड़ने वाली है तो ये चर्चा का विषय है। गौरतलब है, मदनी ने दावा किया था कि ऊं, अल्लाह एक हं। मनु 'ओम' यानी 'अल्लाह' की पूजा करते थे। साथ ही उन्होंने

माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि अगर दावा किया की भारत में सबसे पहले इस्लाम

ओमू-अल्लाह अलग-अलग : बयान पर बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ओम और अल्लाह ये दो शब्द हैं, जिसके माने भी अलग-अलग हैं। दोनों को साथ में जोडकर देखना या समझना बहुत बड़ी गलती है।

विश्व हिंदू परिषद ने साधा निशाना मदनी के बयान पर विश्व हिंदू परिषद

ने भी निशाना साधा है। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोढ बंसल ने कहा कि जिस तरह से मदनी ने इस्लाम की 'सर्वोच्चता' का दावा किया है यह उनको वास्तविक 'मानसिकता' और 'चरित्र' को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि उनका दावा बिल्कुल तथ्य विहीन है। उनके बयान में कोई

एस. जयशंकर और डोभाल से मिले जर्मनी के विदेश-सुरक्षा नीति सलाहकार जेंस प्लाटर्नर

हरियाणा-124001 एक

यरोप के हालात से लेकर हिंद-प्रशांत पर चर्चा

अपने एक ट्वीट के जरिए प्लाटर्नर के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जर्मनी के चांसलर के विदेश और सुरक्षा नीति सलाहकार जेंस प्लाटर्नर से मुलाकात कर बेहद खुशी हुई। जिसमें भारत-जर्मनी की बढ़ती हुई सामरिक भागींदारी और यूरोप के हालात से लेकर हिंद-प्रशांत के मामले पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इसके पूर्व में जर्मनी के संसदीय समह से जड़े एक व्यापक प्रतिनिधमंडल ने भी अपनी भारत यात्रा के दौरान विदेश मेंत्री से मुलाकात की थी। उधर जेंस प्लाटर्नर ने अपनी उक्त दोनों मुलाकातों के बाद राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी इस भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज की आगामी भारत यात्रा के मुद्धे पर मंथन करना था। जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। बताते चलें कि जर्मनी के चाँसलर इसी महीने 25 फरवरी को भारत की यात्रा कर सकते हैं।

भारत की बात को स्पष्टता से सुनता मास्को प्लाटर्नर ने मीडिया से बातचीत में ये भी कहा कि उनकी भारत के एनएसए अजीत डोभाल के साथ हुई मुलाकात

के दौरान अफगानस्तिन, आतंकवाद से मुकाबले के मुद्धे पर भी चर्चा की गई। भारत को बतौर लोकतांत्रिक देश होने के नाते प्लाटर्नर ने एक मुल्यवान भागीदार बताया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन विवाद के बीच तेल और ऊर्जा उत्पादों के संबंध में रूस पर लगाए गए प्राइस कैप से भारत जैसे देशों को फायदा हुआ है। यूक्रेन विवाद को खत्म करने में भारत की भूनिका के सेंदर्भ में उन्होंने कहा कि नई दल्लि की आंवाज व मास्को में स्पष्टता के साथ सुना जाता है।

दौरान दोनों पक्षों के बीच युक्रेन विवाद के दौरान बने हए यरोप के हालात, हिंद-प्रशांत के अलावा कछ अन्य जरूरी मामलों पर चर्चा की गई।

चॉसर से चॉकलेट तक : वैलेंटाइन डे उपहार सदियों में ऐसे बदल गए

भाषा ▶▶। नई दिल्ली

वैलेंटाइन डे के मौके पर कुछ जोडे आपसी सनक में एक-दूसरे से लापरवाह हाँ जाते हैं, जिन्हें आधुनिक दुनिया में प्यार का पुंजीकरण निश्चित रूप से घिसा पिटा लग सकता है। लेकिन वेलेंटाइन डे के मौके पर उपहार देने का चलन बहुत पुराना है। सैकड़ों वर्षों से लोग इस दिन को मनाते आ रहे हैं और प्यार के इजहार के रूप में उपहार देते आ रहे हैं। इस संदर्भ में हम सबसे पहले 14वीं शताब्दी के कवि, सिविल सर्वेंट और जिज्ञासू यूरोपीय यात्री जेफ्री चौसर की बात करते हैं। 1380 के दशक की चॉसर की कविता, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, को 14 फरवरी को प्यार के दिन के रूप में पहला संदर्भ माना जाता है। यह दिन पहले रोमन शहीद संत वैलेंटाइन का पर्व था, लेकिन चौसर ने इसे लोगों के लिए अपने प्रेमियों को चुनने के दिन के रूप में वर्णित किया। वह जानता था कि यह कहना आसान था करना नहीं। कविता का वर्णनकर्ता प्रेम में असफल है, वह इस बात से निराश है कि जीवन इतना छोटा है और उसकी तुलना में अच्छी तरह से प्यार करना सीखने में कितना समय लग जाता है। वह सो जाता है और एक बगीचे का सपना देखता है जिसमें दुनिया के सभी अलग-अलग पक्षी इकट्ठे होते हैं। कुदरत इकट्ठे हुए झुण्ड को समझाती है कि वे हर साल की तरह वैलेंटाइन डे पर उसके नियमों के अनुसार अपना साथी चुनने आए हैं। लेकिन यह प्रक्रिया भ्रम और बहस का कारण बनती है: पक्षी इस बात से सहमत नहीं हो पाते कि उसके नियमों का पालन करने का क्या मतलब है क्योंकि वे सभी अपने भागीदारों में अलग-अलग चीजों को महत्व देते हैं।

कानूनी और भावनात्मक महत्व

आज की तरह. चौसर के समय में भी उपहार देना एक बड़ा अनुष्ठान हुआ करता था और यह इरादे और प्रतिबद्धता का प्रतीक था। पुरानी और मध्य अंग्रेजी में ''वेड'' शब्द का मतलब किसी वादे की गारंटी देने के लिए किया जाता था। 13वीं शताब्दी में इसका मतलब ₹शादी₹ या एक विवाह समारोह हुआ। इसी अवधि में विवाह को एक ईसाईकृत और अंट्रट प्रतिबद्धता (चर्च का एक संस्कार) में परिवर्तित होते देखाँ गया। गीतों, कहानियों और अन्य प्रकार की कलाओं में प्रेम की नई परम्पराओं का विकास हुआ। इन सम्मेलनों ने भावनाओं के व्यापक सांस्कृतिक विचारों को प्रभावित कियाः प्रेम पत्र लिखे गए. सेवा के भव्य कार्य मनाए गए. और प्रेम के प्रतीक दिए गए। अंगूठियां, ब्रोच, करधनी (बेल्ट), दस्ताने, गौंटलेट (आस्तीन), रूमाल या अन्य व्यक्तिगत वस्त्र, कंघी, दर्पण, पर्स, बक्से, बर्तन और चित्र - और यहां तक कि मछली - मध्य काल के उत्तरार्द्ध में दिए जाने वाले रोमांटिक उपहारों के तौर पर रिकॉर्ड में मिलते हैं।

प्यार करने की कला

चॉसर की तरह, 20वीं सदी के जर्मन मनोवैज्ञानिक एरिच फ्रॉम ने सोचा कि लोग प्यार करने की कला सीख सकते हैं। फ्रॉम ने सोचा कि प्रेम न केवल भौतिक चीजें देने का एक कार्य है, बल्कि किसी के आनंद, रुचि, समझ, ज्ञान, हास्य और दुख से भी जुड़ा है। जबकि इन उपहारों में कुछ समय और अभ्यास लग सकता है, इतिहास से अधिक सीधे विचार हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से निर्मित कार्डों का बोलबाला हो गया है, जो फूल, आभूषण अंतरंग परिधान और उपभोग्य सामग्रियों (अब अक्सर मछली की तुलना में चॉकलेट) जैसे अन्य पारंपरिक उपहारों के साथ अपना स्थान ले लेते हैं। उस अंतरंग स्पर्श के लिए सभी को वैयक्तिकृत किया जा सकता है।

निविदा RECOR हारयाणा क्र. विभाग का खुलने की तिथि राशि/ईएमडी नोडल अधिकारी बंद होने की तिथि सम्पर्क विवरण/ई-मेल नाम (लगभग) रु. मे की वेबसाइट निदेशक सूचना, जन 'डिजिटल वॉल पेंटिंग / वॉल ग्राफ्टिंग / वॉल आर्ट / वॉल राइटिंग हेतु फर्मों / एजेंसियों के ईएमडी https://etenders.hry.nic.in 0172-5059128 सम्पर्क और भाषाएं, हरियाणा सुचीकरण'' हेतु ई-निविदा। 1 लाख 05.03.2023 diprexhibition@gmail.com लोनिवि भ व प सिरसा जिला सिरसा में सिरसा लुढेसर रोड से शेरपुरा तक कि.मी. 0.00 से 12.49 तक (रोड कट पोर्शन 03.02.2023 15.42 https://etenders.hrv.nic.in 01666-222959 कि.मी. 10.43 से 10.452) हेतु (निकट गाँव चड्डीवाल) में पाइप बिछाने के कारण क्षतिग्रस्त 23.02.2023 pwd-eepd2-sirsa@hry.nic.in रोड का पुनरोद्धार + 1 कार्य। पंचायती राज ब्लॉक कलानौर में एसडब्ल्यूएम + 10 कार्य। 09.02.2023 439.98 https://etenders.hrv.nic.in 8708577177 रोहतक 23.02.2023 prexeeng.roh@hry.nic.in पंचायती राज गांव लजवाना कलां, ब्लॉक जुलाना, जिला जीन्द में गंदे पानी का पुनरोद्धार / कायाकल्प 14.02.2023 77.61 https://etenders.hrv.nic.in 01681-245124 (स्कूल वाली जोहड़ी,) UID-01HRJNDJLN0030LAJW009 + 1 कार्य। जीन्द 28.02.2023 लाख xenprjind@gmail.com पंचायती राज गांव बांसवाला ब्लॉक मोरनी, जिला पंचकूला में नाले से अमेर सिंह के मकान तक गली का 10.02.2023 39.07 https://etenders.hry.nic.in 9467807024 पंचकुला निर्माण + 10 कार्य। 17.02.2023 लाख PREXEENG.PKL@HRY.NIC.IN गांव जल्लोपुर, ब्लॉक नागपुर फतेहाबाद में राजकीय विद्यालय के सामने (पोंड आईडी पंचायती राज 08.02.2023 347.21 https://etenders.hrv.nic.in 1667230855 फतेहाबाद 01HRFTBNGP0166JALL002) का पुनरोद्धार + 6 कार्य। 28.02.2023 लाख prexeeng.ftb@hry.nic.in शिव मंदिर से प्रकाश के मकान तक (हैदरवाला) आईपीबी गली का निर्माण + 8 कार्य। पंचायती राज 09.02.2023 72.39 https://etenders.hrv.nic.in 1667230855 फतेहाबाद 17.02.2023 लाख orexeeng.ftb@hry.nic.in पंचायती राज गांव जल्लोपुर, ब्लॉक नागपुर फतेहाबाद में राजकीय विद्यालय में आईएलपीबी कार्य का निर्माण। 11.02.2023 5.48 https://etenders.hry.nic.in 1667230855 21.02.2023 लाख नागपर prexeeng.ftb@hry.nic.in गांव लाली ब्लॉक रतिया, जिला फतेहाबाद में मेन पीडब्ल्युडी रोड से पशु चिकित्सा हस्पताल पंचायती राज 09.02.2023 12.38 1667230855 https://etenders.hry.nic.in रतिया (छबीलदास अरोड़ा के मकान तक) आईएलपीबी कार्य का निर्माण। 17.02.2023 लाख prexeeng.ftb@hry.nic.in पंचायती राज गांव बडागांव में एससी चौपाल में आरसीसी शैड का निर्माण, गांव फतेहपुर 126 में अम्बेडकर 29.51 11.02.2023 https://etenders.hry.nic.in 0171-2551368 भवन में आरसीसी शैड का निर्माण, गांव तपड़िया रूलदु की ब्लॉक नारायणगढ़ में अमर सिंह से नारायणगढ़, अम्बाला 17.02.2023 लाख prexeeng.amb@hry.nic.in गुरदयाल के मकान तक नाले का निर्माण। पंचायती राज, सामान्य चौपाल में (त्योंथा) में इंडोर जिम की स्थापना + 19 कार्य। 10.02.2023 1746234748 142.51 https://etenders.hry.nic.in कैथल 24.02.2023 लाख prexeeng.ktl@hry.nic.in कृषि एवं किसान कल्याण सैटेलाइट ड्रोन तकनीकों का उपयोग करते हुये 'परसीजन फार्मिंग - टारगेटेड फार्टिलाइजर और 12 13.02.2023 10000/www.agriharyana.gov.in 9417040812 विभाग हरियाणा, कृषि पेस्टिसाइड स्प्रें हेतु अमरजिंग तकनीकों जैसे ए1 और एमएल के उपयोग पर पायलट प्रोजैक्ट 08.03.2023 jdstat.agrihry@gmail.com भवन सेक्टर-21, पंचकूला लागु करना। कृषि एवं किसान कल्याण | सैटेलाइट ड्रोन तकनीकों का उपयोग करते हुये ''क्रॉप यिल्ड एस्टीमेशन'' और ''लोकल क्रॉप 13.02.2023 10000/-9417040812 www.agriharyana.gov.in लोस असैसमेंट'' हेतु अमरजिंग तकनीकों जैसे ए1 और एमएल के उपयोग पर पायलट प्रोजैक्ट विभाग हरियाणा, कृषि 08.03.2023 jdstat.agrihry@gmail.com भवन सेक्टर-21, पंचकूला | लागू करना। वैश्य तकनीकी संस्थान, रोहतक स्थल पर डेस्क टॉप कम्प्यूटर, सिस्टम और प्रिंटर की आपूर्ति व स्थापना। 14.02.2023 10 लाख http://www.vtirohtak.edu.in 01262-248572

दिनांक: 13 फरवरी **2023**

स्थान : नोएडा

राजकीय सहायताप्राप्त संस्थान अधिक जानकारी हेतु कृपया पधारें: www.haryanaeprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in पीआरडीएच-11/2023/280/15680/I/88/6 दि. 13.02.23